

ABHINAV LEASING AND FINANCE LIMITED

REGD OFF : S-524, 1ST FLOOR , VIKAS MARG, SHAKARPUR, DELHI-110092
CIN: L65100DL1984PLC018748

30th May 2026

To,
The Deputy Manager
Listing Compliance Department
BSE Limited
25th Floor, P.J Tower,
Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code: 538952
ISIN: INE211D01027

Sub: Submission of newspaper advertisements w.r.t Audited Financial Results for the quarter and financial year ended on 31st March 2026.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of Newspaper publications wherein the extract of Audited Financial Results for the quarter and financial year ended on 31st March 2026 are published.

The same were published on Sunday i.e. 31st May 2026 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi).


The above information is also available on the website of the Company <https://www.abhinavleasefinltd.in/>

Kindly take the above information on your records.

Thanking you,

For **ABHINAV LEASING AND FINANCE LIMITED**

For Abhinav Leasing and Finance Ltd.



Director/Auth. Signatory

Atul Kumar Agarwal

(Director)

DIN: 00022779

EQUILATERAL ENTERPRISES LIMITED

(Formerly Known as: Surya Industrial Corporation Limited)
CIN: L36912UP1989PLC010285
Regd. Office: C-273, Sector-63, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, 201301
Corp. Office: 801, Shubh Square Lal Darwaja Gotalawadi Main Rod, Next to New Flyover, Surat - 395003
Ph: 0261-3546252, E-mail: sic11388@gmail.com Web: www.equilateral.in
(Extract of Standalone Audited Financial Result for the Quarter & year ended 31st March, 2026)

Sl. No.	Particulars	Standalone Rs. In Lakhs				
		3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year to Date figures for current period ended	Previous accounting year ended
		31-Mar-26	31-Dec-25	31-Mar-25	31-Mar-26	31-Mar-25
1	Total Income from operations	865.890	1029.780	612.390	6023.800	1640.010
2	Total Expenses	874.050	1027.130	604.030	5998.340	1621.760
3	Net Profit / (Loss) before tax after exceptional items	-8.600	2.650	8.360	24.020	18.230
4	Net Profit / (Loss) after Tax and Extraordinary Items	-8.960	2.650	8.350	24.020	18.220
5	Total Comprehensive Income for the period	-8.960	2.650	8.350	23.660	18.220
6	Paid-Up Equity Share Capital (FV 10/- each)	1233.170	1233.170	1233.170	1233.170	1233.170
7	Earning Per Share Basic	0.080	0.020	0.070	0.190	0.150
	Diluted	0.080	0.020	0.070	0.190	0.150

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results (Standalone) for the FY 2025-26, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The above Standalone financial results have been reviewed by the audit committee and approved by the board of directors at its meeting held on 30th May 2026, and the Full financial result are available on stock exchange website and on the company's website www.equilateral.in

For EQUILATERAL ENTERPRISES LIMITED
Sd/-
Pratik Kumar
Sharadkumar Mehra
Managing Director
DIN - 06902637

Date: Surat
Date: 30-05-2026

NAINITAL BANK

Branch- Kichha, Address- The Nainital Bank Limited, Yadav Foods Limited Compound, Rudrapur Road, Kichha, District- Udham Singh Nagar, Uttarakhand- 263148

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

All the borrowers/guarantors/co-obligants mentioned herein below are notified that loan(s) availed by them from The Nainital Bank Ltd., Kichha, Address- The Nainital Bank Limited, Yadav Foods Limited Compound, Rudrapur Road, Kichha, District- Udham Singh Nagar, Uttarakhand- 263148 branch is/are NPA/s. The demand notice u/s 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 sent through Registered Post/Courier have been received/ returned undelivered. We indicate our intention of taking possession of secured securities whose brief are mentioned below as per section 13(4) of Act in case of their failure to pay the amount mentioned along with future interest and charges within 60 days.

Name & Address of Borrowers/Guarantors
1. Dharamveer S/o Mangteeram alias Mangli Lal (Borrower), R/o Prem Vihar, Khamaria Road, Lalpur Anshik, Kichha, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-263148. Also at- Ward No. 5, Nai Sunhari, Radha Swami Satsang Vyas, Kichha, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-263148.
2. Ikrar Husain S/o Chhuttan Bux (Guarantor), R/o Village & PO- Lalpur Aanshik, Kichha, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-263148.
3. Data Ram S/o Nathu Lal (Guarantor), R/o Nai Sunhari, Ward No. 5, Radha Swami Vyas, Kichha, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-263148.

Issued Demand Notice dated 18.03.2026 for Rs. 3,39,921.35 (Rupees Three Lakh Thirty Nine Thousand Nine Hundred Twenty One And Paise Thirty Five Only as on 11.03.2026) (plus future interest & other expenses thereon with effect from 12.03.2026) less recovery, if any.

Brief details of Property hypothecated/Mortgaged: All part & parcel of the property situated at Khet No- 595/1 Min, 595/2 Min, 591 Min, at Ward No-10 Tehsil-Kichha, Udham Singh Nagar, Uttarakhand- 263148. Sale Deed registered in the office of Sub Registrar Kichha bearing Bahi No.1, Zild No. 818, Pages 259 to 274, Serial No. 55 duly registered at Sub Registrar Kichha, dated 03.01.2012 in the name of Dharamveer S/o Mangteeram alias Mangli Lal measuring Area 81.31 Sq. mtr. Boundaries as per Sale Deed:- North: Plot of Others, South: Plot of Others, East: Road 15' Wide, West: Plot of Others.

The borrowers/guarantors are advised to collect undelivered original notice(s) addressed to them from our Kichha, Address- The Nainital Bank Limited, Yadav Foods Limited Compound, Rudrapur Road, Kichha, Distt-Udham Singh Nagar, Uttarakhand-263148 branch and pay the amount outstanding with interest and their costs within 60 days from the date of this publication to avoid further action under the Act.

Place: Kichha, Uttarakhand Date: 31.05.2026 Authorized Officer

NEW LIGHT INDUSTRIES LIMITED

(Formerly Known as New Light Apparels Limited)
Regd. Office: GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi, Delhi, 110027
CIN NO.: L27501DL1995PLC064005, Email: secretarial@newlightindustries.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31 MARCH, 2026

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited
		31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2025
1	Total Income	144.80	136.99	336.94	732.93
2	Total Expenses	121.82	137.11	327.32	676.64
3	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	22.98	1.88	9.62	56.29
5	Net Profit for the period after tax and Exceptional and/or Extraordinary items	8.57	2.12	22.33	42.12
6	Total Comprehensive Income, Net of Tax	8.57	2.12	22.33	42.12
7	Equity Shares Capital (Face value Rs. 1/- Per equity share)	876.00	876.00	876.00	876.00
8	Earnings Per Share (for continuing and discontinued Operations)	0.010	0.002	0.025	0.048
	1. Basic	0.010	0.002	0.025	0.048
	2. Diluted	0.010	0.002	0.025	0.048

Notes:
1. These Financial Results have been filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results are available on the stock exchanges website: www.bseindia.com. The same is also available on the company's Website: https://newlightindustries.com/.
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at its Meeting held on 30 May, 2026.
3. These Results have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards), Rules 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013.
4. The Operations of the company are considered as a single business product. Segment reporting is not applicable.

For New Light Industries Limited
(Formerly New Light Apparels Limited)
Sd/-
Saurabh Agrawal
Managing Director
DIN: 08592095

Place: New Delhi
Date: 30 May, 2026

KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED

(Formerly Known as Pankaj Piyush Trade and Investment Limited)
Regd. Office: Office No-500 5th Floor ITL Twin Tower Plot No-B-9 NSP Pitampura Delhi -110034
CIN NO. L22209DL1982PLC256291, Phone: 011-44781747,
Email: info@piyushinvestment@gmail.com Website: www.kairosoft.ai

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2026

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31/03/2026	31/03/2025	31/03/2026	31/03/2025
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	38.47	39.33	451.10	177.18
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(18.96)	(389.94)	(42.02)	(318.92)
3	Net Profit before tax for the period (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(18.96)	(389.94)	(42.02)	(238.92)
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(14.23)	(389.94)	(42.54)	(239.26)
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-	-	-	-
6	Equity Shares Capital (Face value Rs. 10/- Per equity share)	118.30	118.30	118.30	118.30
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of previous accounting year	-	1879.09	3637	3673.5
8	Earning Per Share of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued Operations) Basic and diluted *	(1.20)	(32.07)	(3.6)	(20.23)

NOTES:
1. This extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchanges website: www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the company's Website: www.kairosoft.ai
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at its Meeting held on 30th May 2026.
3. Other Figures, except Earnings per share, for the previous period have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the current period's figures.
4. The Company has no subsidiary/Associate/Joint Venture Company(ies). The company is engaged in multiple segments.

For Kairosoft AI Solutions Limited
(Formerly Known as Pankaj Piyush Trade and Investment Limited)
Sd/-
Mr. Deva Ram
Managing Director
DIN: 09003288

Place: New Delhi
Date: 30.05.2026

LEAD FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. Office: 805 New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001
CIN: L71440DL1993PLC033405
Website: www.leadfinancialservices.in Email Id: lead_financial@rediffmail.com
Statement of Audited Financial Results for the Quarter & Year ended March 31, 2026
(Rs. in Lakhs, unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2025
		(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations	10.47	14.76	15.89	62.91
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	1.87	4.84	7.49	27.58
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	1.87	4.84	7.49	27.58
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(2.52)	3.44	1.41	16.29
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(3.79)	3.86	1.01	15.79
6	Paid-Up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	330.00	330.00	330.00	330.00
7	Other Equity	-	-	-	288.02
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not annualised)	(0.08)	0.10	0.04	0.32
	Basic:	(0.08)	0.10	0.04	0.32
	Diluted:	(0.08)	0.10	0.04	0.32

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange Websites i.e. www.bseindia.com and www.cse-india.com and on Company's website i.e. www.leadfinancialservices.in

For and on behalf of the Board of Directors of Lead Financial Services Ltd.
Sd/-
Sudesh Gupta
Executive Director
DIN : 885059

May 30, 2026
New Delhi

CAN FIN HOMES LTD.

B.O. 7/9, 1ST FLOOR, SECTOR 9, AWAS Vikas Colony, Near Karol Petrol Pump, Sikandara
Bodli Road Agra 282007 CIN L85110KA198PLC008699 EMAIL-agra@canfinhomes.com
Ph 0562-4006500, 762079206

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY [Rule 8(1)]

The undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice on the below mentioned dates calling upon the following borrower(s)/co-borrowers/guarantors to repay the amount mentioned in the notice with further interest at contractual rates till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers have failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below, against each borrower, in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on dates mentioned hereinafter.

Name of the Borrowers	Description of Property	Amount due as per notice	Demand Notice Date	Date of Possession
Borrower- Mrs. Hema Sharma W/o Shree Babu and Mr. Shree Babu S/o Puran Chand Guarantor- Mr. Azmer Singh S/o Jadunath Singh	Part of Plot No. 124 & 125 Land Part of Khaska No. 282, 283 & 292 Of Mauza Antoni Tehsil and District Agra. (in Favour of Hema Sharma, Area: 45.95 Sq.m.) Bounded as: East: Plot No. 101 & 102 of Shri Heera Lal, West: Road 18 Feet Wide, North: Plot No. 126 & 127 of Shri Tej Singh, South: Remaining Part of Plot No. 124 & 125	3,61,575/- + interest & expenses	12.01.2026	25.05.2026
Borrower- Mr. Radeshyam S/o Kishan Singh and Mr. Lav Kush Dhangar S/o Radeshyam Guarantor- Mr. Bhuri Singh and All Other Legal Heirs Of Late Sheela Devi W/o Radeshyam	Plot 1-B Part Of Khaska No. 757G, Sarai Hazzam, Mauza Narayach Tehsil Etamadpur Distt. Agra, (in Favour Of Sheela Devi W/o Radeshyam, Area- 83.81 Sq.mt) Bounded as: East: Other's Land, West: Land of Radeshyam, North: Land of Ramvir Sharma, South: Rasta 15 Feet.	4,25,828/- + interest & expenses	05.03.2026	25.05.2026
Borrower- Mr. Jay Vir Singh S/o Hari Singh and Mrs. Manisha W/o Jay Veer Singh, Guarantor- Mr. Saurabh Agarwal S/o Vishnu Agarwal	House Constructed Over The Plot No. 30, Khaska No. 30, Khusbu Residency Extension Mauza Semri & W/o Jay Veer Singh, Guarantor- Distt. Agra, (in Favour of Jayveer Singh Area: 41.80 Sq.mt) Bounded as: East: Plot No. 31, West: Plot No. 29, North: Rasta 7.01 Mtrs. Wide, South: Other's Land	15,37,410/- + interest & expenses	03.02.2026	25.05.2026

The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CFHL for the amount mentioned against each property along with further interest thereon till the date of realization.

Place : Agra Date : 30-05-2026 Sd/- Authorised Officer, CAN FIN HOMES LTD.

ABHINAV LEASING & FINANCE LIMITED

Registered Add: S-524, F/F, School Block, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi - 110092
CIN: L65100DL1984PLC018748 Email: abhinavleasingfintd@gmail.com
Website: abhinavleasingfintd@gmail.com Ph: 011-40196641

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2026

(Figures in Lakhs, except EPS)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2025
		Audited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Revenue (Operations + Other Income)	205.69	92.96	286.80	655.45
2	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	(6.38)	17.22	(18.99)	91.15
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional/Extraordinary items)	(6.38)	17.22	(18.99)	91.15
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional/Extraordinary items)	(31.80)	17.22	(25.19)	65.93
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit / Loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	-	-	-	-
6	Equity Share Capital	499.80	499.80	499.80	499.80
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	-
8	Earning Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)	(0.06)	0.03	(0.05)	0.13
	i Basic	(0.06)	0.03	(0.05)	0.13
	ii Diluted	(0.06)	0.03	(0.05)	0.13

NOTES: 1. The above Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year Ended on 31st March 2026 have been audited by the M/s GAMS & ASSOCIATES LLP, Statutory Auditor and they have expressed a Qualified opinion. The qualification relates to using of accounting software by the Company for maintaining its books of accounts for the Quarter and Financial Year Ended on 31st March 2026, which does not have a feature of recording audit trails (edit log) facility and the same has been operated throughout the year for all relevant transaction recorded in the software. The impact of the qualification has no financial impact.
2. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter and Financial Year Ended on 31st March 2026, filed with the Stock Exchange. The full format of the financial results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on Company's website www.jollyplasticindustriesltd.in along with QR code.

For ABHINAV LEASING & FINANCE LIMITED
Sd/-
Mamta Agarwal
(Managing Director)

Date: 30th May 2026
Place: Delhi

TRADEWELL HOLDINGS LIMITED

CIN: L74110DL1995PLC064237
Regd. Off: S-8 & S-2, DDA SHOPPING COMPLEX, OPP. POCKET-I, MAYUR VIHAR-I, DELHI -110091
Tel.: 011-22755819 | Email Id: info@brandrealty.in | Website: https://www.brandrealty.in

Statement of Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter & Year ended 31st March, 2026

(Rs. in Lacs except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2025
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
Total Income from Operations	90.32	128.75	122.58	520.28
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(33.43)	(11.38)	2.74	88.62
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(33.43)	(11.38)	2.74	88.62
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(53.89)	13.00	72.37	127.22
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(53.34)	13.00	55.47	127.77
Paid up Equity Share Capital (Of Rs. 10/- each)	300.44	300.44	300.44	300.44
Other Equity Excluding Revaluation Reserves	0	0	0	0
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-	(1.79)	0.43	2.41	4.23
Basic:	(1.79)	0.43	2.41	4.23
Diluted:	(1.79)	0.43	2.41	4.23

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of the audited Financial Results for the Fourth Quarter and Year ended 31st March, 2026 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Fourth Quarter and Year ended 31st March, 2026 is available on the BSE website (www.bseindia.com) and Company's website (https://www.brandrealty.in).
2. The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 30th May, 2026.
3. **Special Window for Re-jolement of Transfer Requests of Physical Shares:** Notice is hereby given to Shareholders that in terms of SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/13750/2026 dated 30th January, 2026, a Special Window has been opened for a period of one year from 5th February 2026 to 4th February, 2027, to facilitate re-jolement of transfer requests of physical shares. The detailed notice regarding the Special Window is available on the Company's website, https://www.brandrealty.in/investor-relations.html, under the "Notices" section.

For TRADEWELL HOLDINGS LIMITED
Sd/-
KAMAL MANCHANDA
(WHOLETIME DIRECTOR)
DIN: 00027889

Place: Delhi
Date: 30.05.2026

WELCURE DRUGS AND PHARMACEUTICALS LIMITED

CIN:L68100DL1996PLC227773
Regd. Off. : Plot No. 55, Office No. 104, First Floor, Vijay Block, Laxmi Nagar, East Dehli - 110092
Website : www.welcuredrugs.com, Email: welcuredrugs227@gmail.com

EXTRACT OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Rs. in Lacs)

Sr. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
		ENDED	ENDED	ENDED	ENDED	ENDED
		31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Total revenue from operations	-	146.43	2,312.19	36,700.26	2,645.99
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	-4986.14	142.56	254.09	-549.01	278.01
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	-4986.14	142.56	254.09	-549.01	278.01
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	-4986.14	106.68	254.09	-549.01	217.01
5	Total comprehensive income for the period	-4986.14	106.68	254.09	-549.01	217.01
6	Equity share capital	12359.40	12359.40	1125.12	12359.40	1125.12
7	Reserves(Excluding revaluation reserves as at Balance sheet date)	-	-	-	-2657.37	-989.56
8	Earning Per Share -Basic (after extraordinary items)	-0.40	0.01	0.33	-0.04	0.36
9	Earning Per Share-Diluted (after extraordinary items)	-0.40	0.01	0.33	-0.04	0.36

Note:-
(1). The above Standalone Audited Financial Results for the quarter & year ended 31st March 2026 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th May 2026. The statutory auditors of the company have carried out the Independent Audit in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
(2). The company has prepared these Financial Results in accordance with Companies (Indian Accounting Standard) Rule, 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
(3). The figures of the Previous period's /year figures have been regrouped/rearranged wherever necessary, to conform to the current period's classification.

By order of the Board
For Welcure Drugs & Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Chintan Didwala Ganpat
Managing Director
DIN : 11329665

Date: 29th May, 2026
Place: Delhi

ATS HEIGHTS PRIVATE LIMITED

Regd. Off.: 711/92, Deepali, Nehru Place, New Delhi - 110019
CIN: U70200DL2010PTC205410; Phone No.: 0120-7111550; Fax No.: 0120-7111550
Email Id.: compliances@atsgreens.com; Website: www.atsknightsbridge.com

ANNEXURE I - Format for publishing financial results in newspapers (Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

Amounts in INR Lakhs, unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	For the Quarter Ended		For the year ended	
		31st March 2026</			

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: अहलुवालिया चैम्बर्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. 16 एवं 17, स्थानीय शांतिग सेंटर, मदनगौर, पुष्पा भवन के पास, नई दिल्ली-110062 वेबसाइट: www.deepakbuilders.co.in
CIN: L45309DL2017PLC323467

31.03.2026 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए अंकेषित स्टैंडालोन वित्तीय परिणाम का सार (लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		31.03.2026 (अंकेषित)	31.12.2025 (अंकेषित)	31.03.2025 (अंकेषित)	31.03.2026 (अंकेषित)
1	परिचालन से कुल आय/अनुप्राण	23812.11	16774.72	22591.82	55992.48
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशेष और/या असाधारण मदों से पहले)	1989.83	716.01	1655.71	5378.04
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	1989.83	716.01	1655.71	5378.04
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	1451.31	516.65	1119.79	3965.21
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ और कर के बाद अन्य व्यापक आय को मिलाकर)	-5.49	-15.98	-7.42	-57.50
6	भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/-)	4655.09	4655.09	4655.09	4655.09
7	पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व (जैसा कि पिछले/पूरे साल के अंत में बैलेंस शीट में दिखाया गया है)	39500.42	38047.25	39026.80	39500.42
8	प्रति शेयर आय (जारी और बंद परिचालन के लिए) - शुद्ध और अनुप्राण	3.10	1.11	2.40	8.51

नोट: उपरोक्त 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जो सेबी (पुनर्निर्दिष्ट दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दायित्व किया गया है। तिमाही/वर्ष समाप्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है। यह कंपनी की वेबसाइट www.deepakbuilders.co.in पर भी उपलब्ध है।

बॉर्ड के अध्यक्ष/प्रमुख अधिकारी: कृते दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा - (दीपक कुमार सिंगल) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (डीआईएन: 01562688)

दिनांक: 30.05.2026 स्थान: लुधियाना

TRADEWELL HOLDINGS LIMITED

CIN: L74110DL1995PLC064237
Regd. Off: S-8 & S-2, DDA SHOPPING COMPLEX, OPP. POCKET-I, MAYUR VIHAR-I, DELHI -110091
Tel.: 011-22755819 | Email Id: info@brandreality.in | Website: <https://www.brandreality.in>

Statement of Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter & Year ended 31st March, 2026 (Rs. in Lacs except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	31.03.2026 (Audited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)
Total Income from Operations	90.32	128.75	122.58	520.28
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(33.43)	(11.38)	2.74	88.62
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(33.43)	(11.38)	2.74	88.62
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(53.89)	13.00	72.37	127.22
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(53.34)	13.00	55.47	(54.48)
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	300.44	300.44	300.44	300.44
Other Equity Excluding Revaluation Reserves	0	0	0	0
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
Basic:	(1.79)	0.43	2.41	4.23
Diluted:	(1.79)	0.43	2.41	4.23

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the audited Financial Results for the Fourth Quarter and Year ended 31st March, 2026 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Fourth Quarter and Year ended 31st March, 2026 is available on the BSE website (www.bseindia.com) and Company's website (<https://www.brandreality.in>).
- The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 30th May, 2026.
- Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares: Notice is hereby given to Shareholders that in terms of SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/13750/2026 dated 30th January, 2026, a Special Window has been opened for a period of one year from 5th February, 2026 to 4th February, 2027, to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares. The detailed notice regarding the Special Window is available on the Company's website, <https://www.brandreality.in/investor-relations.html>, under the "Notices" section.

For TRADEWELL HOLDINGS LIMITED Sd/- KAMAL MANCHANDA (WHOLETIME DIRECTOR) DIN: 00027889
Place: Delhi Date: 30.05.2026

अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पता: एन-524, एफ/एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, शकूरपुर, दिल्ली - 110092
सीआईएन: L65100DL1984PLC018748 ईमेल: abhinavleasefintd@gmail.com
वेबसाइट: abhinavleasefintd@gmail.com फोन: 011-40196641

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (आंकड़ें लाखों में, इंग्लिश में छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.12.2025 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)
1	कुल राजस्व (परिचालन + अन्य आय)	205.69	92.95	285.60	555.45
2	कर पूर्व अतिरिक्त शुद्ध लाभ (हानि) (अवधि/असाधारण मदों से पूर्व)	(6.38)	17.22	(18.99)	91.15
3	कर पूर्व अतिरिक्त शुद्ध लाभ (हानि) (अवधि/असाधारण मदों के पश्चात)	(6.38)	17.22	(18.99)	91.15
4	कर पश्चात अतिरिक्त शुद्ध लाभ (हानि) (अवधि/असाधारण मदों के पश्चात)	(31.60)	17.22	(25.19)	65.93
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु शुद्ध लाभ/हानि (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल)	-	-	-	-
6	इक्विटी शेयर पूंजी	499.00	499.00	499.00	499.00
7	आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा कि मत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है	-	-	-	-
8	आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	(0.06)	0.03	(0.05)	0.13
	i) बेसिक	(0.06)	0.03	(0.05)	0.13
	ii) डायल्यूटेड	(0.06)	0.03	(0.05)	0.13

दिनांक: 30 मई 2026 स्थान: दिल्ली

AJANTA SOYA LIMITED

CIN L15494RJ1992PLC016617
Regd. Office & Works : SP-916, Phase - III, Industrial Area, Bhiwadi - 301019, Rajasthan, India
Tel. : 911-6176727, 911-6128880
Corp. Office : 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi-110034
Phone : 011-42515151; Fax : 011-42515100
WEBSITE: www.ajantasoya.com, Email - cs@ajantasoya.com

Extract of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2026 (Rs. in Lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	Standalone		Standalone	
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended
		31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from operations	33,691.52	31,174.82	38,839.35	1,30,767.05
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	(99.84)	325.43	659.00	1,206.79
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(99.84)	325.43	659.00	1,206.79
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(119.09)	251.88	501.89	837.53
5.	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax))	(44.85)	248.50	524.36	913.37
6.	Equity Share Capital	1609.66	1609.66	1,609.66	1,609.66
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	15,187.84 (as on 31.03.2026)	14,274.47 (as on 31.03.2025)	14,274.47 (as on 31.03.2025)	15,187.84 (as on 31.03.2026)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	Basic:	(0.15)	0.31	0.62	1.04
	Diluted:	(0.15)	0.31	0.62	1.04

Note: This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended 31st March, 2026 are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and on Company's website www.ajantasoya.com, the Company's webpage (<https://ajantasoya.com/financial-results-2/>). The above results were reviewed by the Audit Committee, and thereafter approved by the Board of Directors in their meetings held on 30th May, 2026. Previous year periods figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

On behalf of the Board For Ajanta Soya Limited Sd/- Sushil Kumar Goyal Managing Director (DIN: 00125275)

Place: New Delhi Date: 30th May, 2026

न्यू लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: सी-209, नेक्स्ट, विन्हाजी एम्प्लेज, राजा गार्डन, नई दिल्ली, दिल्ली 110027, सीआईएन संख्या: L27501DL1995PLC064005 ईमेल: secretarial@newlightindustries.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र.सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
		लेखापरीक्षित 31.03.2026	अलेखापरीक्षित 31.12.2025	लेखापरीक्षित 31.03.2025	लेखापरीक्षित 31.03.2026
1	कुल आय	144.40	136.99	336.94	732.93
2	कुल व्यय	121.42	137.11	327.32	876.64
3	अवधि का शुद्ध लाभ (कर, अपवाद और/या असाधारण मदों से पहले)	22.98	1.88	9.62	56.29
4	कर और अपवाद और/या असाधारण मदों के बाद अतिरिक्त शुद्ध लाभ	8.57	2.12	22.33	42.12
5	कर के बाद कुल व्यापक आय	8.57	2.12	22.33	42.12
6	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य ₹ 1 रुपये)	876.00	876.00	876.00	876.00
7	प्रति शेयर आय (निरंतर और बंद किए गए चंचलन के लिए)	0.010	0.002	0.025	0.048
	1. मूल	0.010	0.002	0.025	0.048
	2. तुल्य	0.010	0.002	0.025	0.048

दिनांक: 30 मई, 2026

भगवती गैस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नवाना, खेजी नगर - 335004, जयपुर - राजस्थान
निवेशित कार्यालय: एन-482/ए, गेट नं. 1, नई दिल्ली - 110048. ईमेल आईडी: bhagwatigas@gmail.com,
सीआईएन: U24111RJ1974PLC005789, वेबसाइट: www.bhglgroup.in, इटोलॉजी नं: 91-11-49120719

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश (₹ लाखों में, छोड़कर शेयरों में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	200.76	37.07	279.29	435.62
2	कर पूर्व अतिरिक्त शुद्ध लाभ (हानि) (हानि, कर, अपवाद और/या असाधारण मदों के पश्चात)	150.64	(65.66)	74.73	68.08
3	कर पश्चात अतिरिक्त शुद्ध लाभ (हानि) (अवधि/असाधारण मदों के पश्चात)	174.99	(137.50)	99.08	14.24
4	अवधि की कुल व्यापक आय (अवधि का लाभ/हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से सम्मिलित	177.56	(132.42)	101.65	17.31
5	प्रदाय समाप्त आय पूंजी (₹. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1,674.25	1,674.25	1,674.25	1,674.25
6	आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	-	-	(103.58)	(205.23)
7	आय प्रति शेयर (इंजीयर):				
	1. मूल	1.06	(0.50)	0.61	0.10
	2. तुल्य	1.06	(0.50)	0.61	0.10

दिनांक: 30 मई 2026 स्थान: नई दिल्ली

FIEM LIGHT UP THE WORLD

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026 (Rs. in Lakhs)

SN	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		31.03.26 (Audited)	31.12.25 (Unaudited)	31.03.25 (Audited)	31.03.26 (Audited)
1	Total Revenue from operations (net)	75,125.25	69,007.15	63,942.43	2,81,560.87
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	9,464.36	8,418.27	7,357.08	34,142.85
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	9,464.36	8,418.27	7,357.08	34,142.85
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	7,102.88	6,336.68	5,884.64	25,558.44
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	7,051.79	6,392.97	5,837.85	25,466.79
6	Equity Share Capital	2,631.97	2,631.97	2,631.97	2,631.97
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	1,18,869.17
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	1. Basic:	26.99	24.08	22.36	97.11
	2. Diluted:	26.99	24.08	22.36	97.11

Note: a) Key Information on Standalone financial result are as under:-

SN	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		31.03.26 (Audited)	31.12.25 (Unaudited)	31.03.25 (Audited)	31.03.26 (Audited)
1	Total Revenue from operations (net)	75,097.98	69,001.48	63,907.41	2,81,410.77
2	Profit / (Loss) before tax	9,421.77	8,426.64	7,586.24	33,927.87
3	Net Profit / (Loss) after tax	7,058.57	6,345.42	5,769.42	25,387.76

b) The above is an extract of the detailed format of Financial Results of the Quarter and Year ended March 31, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results of the Quarter and Year ended March 31, 2026 are available on the website of the Company (www.fiemindustries.com) and website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

By order of the Board For FIEM INDUSTRIES LIMITED Sd/- J.K. Jain Chairman & Managing Director DIN-00013356

Place: Gurugram Dated: May 30, 2026

FIEM INDUSTRIES LTD. Regd. Office: Unit No. 1A & 1C, First Floor, Commercial Towers, Hotel JW Marriott, Aerocity, New Delhi-110037. Tel.: +91-9821795327/28/29/30. E-mail: fiemsec@fiemindustries.com Website: <http://www.fiemindustries.com> CIN: L36990DL1989PLC034928

एकम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर 11, रानी झांसी रोड, (मोतिया खान), एम.एम. रोड, नई दिल्ली - 110055
एम.एम. रोड, नई दिल्ली - 110055
सीआईएन- L74899DL1993PLC055697,
ईमेल आईडी: ekam.leasing1@gmail.in, info@ekamleasing.in
वेबसाइट: www.ekamleasing.in

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों ("वित्तीय परिणाम") की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 29 मई, 2026 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किया गया है। वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.ekamleasing.in पर उपलब्ध है।

पूर्ण वित्तीय परिणाम देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें:



निदेशक मंडल की ओर से एकम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हस्ताक्षरकर्ता / - राकेश जैन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डीआईएन: 00061737

स्थान-नई दिल्ली दिनांक- 29.05.2026

R R Financial Consultants Limited

CIN: L74899DL1986PLC023530
Regd Off.: 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakamba Road, New Delhi-110001
Phone: 011-44441111 Email Id: cs@rrfcl.com Website: www.rrfcl.com
Extract of Consolidated Audited Financial Results for Financial year ended on 31st March, 2026 (₹ in lakhs)

Particulars	Consolidated			
	31.03.2026 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)
Total income from operations (net)	647.67	614.38	944.83	3378.28
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	76.70	288.16	285.35	1038.72
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	76.70	288.16	285.35	1038.72
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.02	208.53	181.15	715.02
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	7.02	208.53	181.15	715.02
Equity Share Capital	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the unaudited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	3994.39
Earnings Per Share (face value of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
Basic:	0.06	1.88	1.64	6.46
Diluted:	0.06	1.88	1.64	6.46

Key Standalone Audited Financial information for the Financial year ended on 31st March, 2026 (₹ in lakhs)

Particulars	Consolidated		Consolidated	
	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended
	31.03.2026 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (